



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

संख्या- 150      राँची, गुरुवार,      11 फाल्गुन, 1938 (श०)  
2 मार्च, 2017 (ई०)

---

#### उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ।

-----  
अधिसूचना

28 फरवरी, 2017

**संख्या-1/नीति-5-1/2015-388--** झारखण्ड उत्पाद अधिनियम, 1915 (अधिनियम-2, 1915) की 89 की उपधारा (1) एवं उप-धारा (3) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल, समय- समय पर यथासंशोधित अधिसूचना एस० ओ० संख्या-647 दिनांक 27 मार्च, 2009 के अधीन प्रकाशित झारखण्ड उत्पाद (शराब की खुदरा बिक्री की अनुज्ञप्तियों की बन्दोबस्ती) नियमावली, 2009 में अधिसूचना संख्या-1981 दिनांक 8 सितम्बर, 2015 के द्वारा संशोधित में पुनः निम्नवत् संशोधन करते हैं, यथा -

कतिपय नियमों में संशोधन :- नीचे स्तम्भ 1 में झारखण्ड उत्पाद (शराब की खुदरा बिक्री की अनुज्ञप्तियों की बन्दोबस्ती) नियमावली, 2009 के वर्तमान नियमों के स्थान पर स्तम्भ 2 में यथा उपवर्णित नियम प्रतिस्थापित किये जायेंगे, यथा -

स्तम्भ 1	स्तम्भ 2
वर्तमान नियम	एतद द्वारा प्रतिस्थापित नियम
<p><b><u>नियमावली की कंडिका-17</u></b></p> <p>आयुक्त उत्पाद, खुदरा उत्पाद दुकान के लिए भारत निर्मित विदेशी शराब, बीयर, देशी शराब एवं मसालेदार देशी शराब का मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का निर्धारण वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा को, त्रैमासिक आधार पर बँटवारा करते हुए करेंगे। त्रैमासिक कोटा को समानुपातिक रूप में विभाजित किया जाएगा।</p> <p>अनुज्ञाधारी किसी माह की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा उस माह के अंतिम कार्य दिवस तक उठा सकता है। यदि किसी अपरिहार्य कारणवश वह उक्त माह के लिए निर्धारित मात्रा का उठाव नहीं कर पाता है तो अनुज्ञप्तिधारी लिखित रूप से अनुरोध कर सकेगा कि नहीं उठाई गई मात्रा को अगले माह के मासिक कोटा के साथ जोड़ दिया जाए। इस परिस्थिति में गत माह की शेष मात्रा मिलाकर उस माह का कोटा माना जाएगा बशर्ते कि किसी भी परिस्थिति में यह मासिक कोटा एक माह के नियत कोटा के दुगुना से अधिक नहीं होगा, परन्तु माह मार्च का अवशेष कोटा माह अप्रैल में नहीं उठाया जायेगा।</p>	<p><b><u>नियमावली की कंडिका-17</u></b></p> <p>आयुक्त उत्पाद, खुदरा उत्पाद दुकान के लिए भारत निर्मित विदेशी शराब, बीयर, देशी शराब एवं मसालेदार देशी शराब का मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का निर्धारण वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा को, त्रैमासिक आधार पर बँटवारा करते हुए करेंगे। त्रैमासिक कोटा को समानुपातिक रूप में विभाजित किया जाएगा।</p> <p>अनुज्ञाधारी किसी माह की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा उस माह के अंतिम कार्य दिवस तक उठा सकता है। यदि किसी अपरिहार्य कारणवश वह उक्त माह के लिए निर्धारित मात्रा का उठाव नहीं कर पाता है तो अनुज्ञप्तिधारी लिखित रूप से अनुरोध कर सकेगा कि नहीं उठाई गई मात्रा को अगले माह के मासिक कोटा के साथ जोड़ दिया जाए। इस परिस्थिति में गत माह की शेष मात्रा मिलाकर उस माह का कोटा माना जाएगा बशर्ते कि किसी भी परिस्थिति में यह मासिक कोटा एक माह के नियत कोटा के दुगुना से अधिक नहीं होगा, परन्तु माह मार्च का अवशेष कोटा माह अप्रैल में नहीं उठाया जायेगा। एक माह के नियत कोटा का दुगुना का अर्थ वर्तमान नियम के आलोक में यह हुआ कि, जिस माह में उठाव हेतु एक माह के नियत कोटा के दुगुना की गणना की जा रही है, उस माह का कोटा एवं गत माह के कोटा के योग को ही नियत कोटा का दुगुना समझा जाए।</p> <p>भारत निर्मित विदेशी शराब दुकान के अनुज्ञाधारियों एवं कम्पोजिट दुकान के अनुज्ञाधारियों को भारत निर्मित विदेशी शराब एवं बीयर के लिए निर्धारित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के तहत बीयर के बदले भारत निर्मित विदेशी शराब तथा भारत निर्मित विदेशी शराब के बदले बीयर के न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के आपसी सामंजन की अनुमति अधीक्षक उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद द्वारा कारणों की</p>

जाँच के बाद विशेष आदेश पारित करते हुये निम्नांकित शर्तों के साथ दी जा सकती है:-

(i) बीयर के बदले भारत निर्मित विदेशी शराब का उठाव करने वाले अनुज्ञाधारी को सर्वप्रथम अपने भारत निर्मित विदेशी शराब के मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का उठाव कर लेना होगा।

बीयर के बदले भारत निर्मित विदेशी शराब के उठाव की अनुमति हेतु निम्न सूत्र का उपयोग किया जाएगा -

(बीयर का मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा - बीयर की उठाई गई मात्रा) ÷ **conversion factor** जो वर्तमान में 5.532 है।

(ii) भारत निर्मित विदेशी शराब के बदले बीयर का उठाव करने वाले अनुज्ञाधारी को सर्वप्रथम अपने बीयर के मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का उठाव कर लेना होगा।

भारत निर्मित विदेशी शराब के बदले बीयर के उठाव की अनुमति हेतु निम्न सूत्र का उपयोग किया जाएगा -

(भारत निर्मित विदेशी शराब का मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा - भारत निर्मित विदेशी शराब की उठाई गई मात्रा) X **conversion factor** जो वर्तमान में 5.532 है।

(iii) **conversion factor** का निर्धारण भारत निर्मित विदेशी शराब एवं बीयर के राजस्व संग्रहण के अवयव यथा अनुज्ञाशुल्क, उत्पाद कर, संचलन शुल्क एवं आयात शुल्क को दृष्टिपथ रखते हुये किया जाएगा। **conversion factor** को निर्धारित करने वाले सभी अवयवों यथा अनुज्ञाशुल्क, उत्पाद कर, संचलन शुल्क तथा आयात शुल्क में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर अथवा भविष्य में अधिरोपित किये जानेवाले शुल्क /कर, वर्तमान में निर्धारित **conversion factor** को प्रभावित करेगा। उक्त अवयवों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर नये **conversion factor** की गणना आयुक्त उत्पाद द्वारा की जायेगी एवं तदनुरूप उनके

	<p>द्वारा आदेश निर्गत किया जाएगा ।</p> <p>(iv) भारत निर्मित विदेशी शराब के लिए बीयर अथवा बीयर के लिए भारत निर्मित विदेशी शराब का आपसी सामंजन (inter conversion) के लिए अतिरिक्त अनुज्ञाशुल्क के भुगतान के बगैर conversion उसी हद तक अनुमान्य किया जाएगा, जिस हद तक भारत निर्मित विदेशी शराब अथवा बीयर का उठाव नहीं किया गया है। इससे अधिक मात्रा के उठाव के लिए भारत निर्मित विदेशी शराब अथवा बीयर के ऊपर अनुमान्य अनुज्ञाशुल्क की दर से अतिरिक्त अनुज्ञाशुल्क का भुगतान करना होगा ।</p> <p>(v) भारत निर्मित विदेशी शराब एवं बीयर के मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का आपसी सामंजन (inter conversion) के लिए आवेदन करने वाले अनुज्ञाधारी को मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से 15 प्रतिशत अधिक तक उठाव (बिना अतिरिक्त अनुज्ञाशुल्क का भुगतान किये) की सुविधा अनुमान्य नहीं होगी ।</p>
--	--

2- यह झारखण्ड के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-(अस्पष्ट),

सरकार के सचिव,

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग,

झारखण्ड, राँची ।

-----